

## @shahjahanpurpol

### \*प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 27.12.2020\*

\*अपराध शाखा (Investigation wing) को कार्यवाही के दौरान मिली बड़ी कामयाबी, साइबर अपराध करने वाले गैंग का किया भंडाफोड, 03 अदद मोबाइल, 12 अदद बैंक पासबुक, 01 अदद बैंक चैक बुक, 03 अदद आधार कार्ड, 02 अदद बैंक A.T.M. कार्ड, 04 अदद सिमकार्ड व 2320/- रुपये नगद बरामद कर 02 शांतिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।\*

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री निपुण अग्रवाल पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी अपराध/नगर के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक अपराध शाखा के कुशल नेतृत्व में अपराध शाखा (Investigation wing) को एक बड़ी कामयाबी मिली ।

दिनांक 26.12.20 को अपराध शाखा/सर्विलेन्स क्राइम टीम द्वारा साइबर अपराध करने वाले व्यक्तियों को थाना क्षेत्र जलालाबाद में गिरफ्तार किया गया जिनके द्वारा क्षेत्र की भोली-भाली जनता को साइबर क्राइम के माध्यम से विश्वास में लेकर एवं उन्हें लालच देकर अपने खातों में रुपये को डलवा कर उनके साथ ठगी का कार्य काफी समय से कर रहे थे जिन्हें आज दिनांक 26.12.20 को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 21.30 बजे रोडवेज बस स्टैंड जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर से 02 अभियुक्तों (1)-करन कुमार पुत्र कपिल चौधरी नि० ग्राम मोहसिनपुर पन्हेसा थाना शेखोपुर सराय जिला शेखपुरा बिहार (2)-विनोद कुमार पुत्र सेवाराम ग्राम भीखमपुर थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 723/2020 धारा 420,406 भादवि व 66D IT एक्ट के अन्तर्गत जेल भेजा जा रहा है ।

उपरोक्त अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अपने गैंग के अन्य साथियों के नाम (1). राजन शुक्ला पुत्र हरेदारी लाल ग्राम मोल्लापुर थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी(2). बालिस्टर पुत्र सियाराम यादव ग्राम सुझ्या खेडा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी (3). जितेन्द्र पुत्र जयपाल ग्राम मुनफ्फरपुर थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी बताये ।

### \*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-\*

- 1 करन कुमार पुत्र कपिल चौधरी नि० ग्राम मोहसिनपुर पन्हेसा थाना शेखोपुर सराय जिला शेखपुरा बिहार ।
- 2- विनोद कुमार पुत्र सेवाराम ग्राम भीखमपुर थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी ।

### \*बरामदगी का विवरण:-\*

1. 03 अदद मोबाइल,
2. 12 अदद बैंक पासबुक,
3. 01 अदद बैंक चैक बुक,
4. 03 अदद आधार कार्ड,
5. 02 अदद बैंक A.T.M. कार्ड,
6. 04 अदद सिमकार्ड
7. 2320/- रुपये नगद

### \*गिरफ्तारी करने वाली टीम:-\*

1. नि० श्री अनन्तराम अपराध शाखा (Investigation wing)
2. नि० श्री राजवीर सिंह अपराध शाखा (Investigation wing)
3. हे० का० 135 रामकुमार अपराध शाखा (Investigation wing)
4. का० 264 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह (एस.ओ.जी.)
5. का० 1221 दुष्यन्त प्रताप सिंह (सर्विलान्स सेल)